

याह! | मेरा याह! | मेल | जागरण मुख्य पृष्ठ | Font help

खोज

खोज

मुख्य पृष्ठ राष्ट्रीय राज्यों की खबरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खेल मनोरंजन

Select State

हरियाणा

Select City

फरीदाबाद

Go

इसे मेरा स्थायी शहर बनाएं

## ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के बजट और डिजाइन को मंजरी

Jan 27, 05:47 pm

बताएं

फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र : सोनीपत से फरीदाबाद तक बनने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे योजना की एक बाधा दूर हो गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने इसके संशोधित बजट व डिजाइन को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र सरकार की प्लानिंग कमेटी के सदस्य व कई अन्य आला अधिकारी शामिल होते हैं। इस योजना की निविदा प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होगी। पहले यह प्रक्रिया 27 जनवरी से होनी थी।

ज्ञात हो कि पहले इस योजना के लिए करीब 3500 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशों के मद्देनजर इस बजट को कम करके 2700 करोड़ रुपये कर दिया गया। बजट में कटौती के कारण विभाग को योजना के डिजाइन में भी कई तब्दीलियां करनी पड़ीं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि डिजाइन व बजट की मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू करने में और विलंब नहीं होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि 7 फरवरी को इस योजना की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके कुछ माह के बाद इस योजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

योजना पर एक नजर

यह एक्सप्रेस-वे एनएच-1 कुंडली (सोनीपत) से यमुना पार करने के बाद माविकलन, शरफाबाद के पास हिंडन नदी से एनएच-58 के दुहाई से होता हुआ डासना के पास एनएच-24 पर मिलेगा। यहां से यह एक्सप्रेस-वे एनएच-59 पर बीलकबरपुर के पास से होता हुआ कासना - सिकंद्राबाद रोड (सिरसा के निकट) से यमुना के ऊपर से होता हुआ फज्जपुर खादर, अटाली छांयसा (मौजपुर के पास) एनएच- 2 पर पलवल पहुंचेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे पर 3 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इनमें से दो ब्रिज यमुना नदी के ऊपर और एक ब्रिज हिंडन नदी के ऊपर से होता हुआ बनेगा। इनके अलावा 43 ब्रिज व 59 अंडरपास बनाए जाने की योजना है। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

ईमेल करें

मैसेंजर के द्वारा भेजें

प्रिंट संस्करण

लेख को दर्जा दें

दर्जा दें

(0) वोट का औसत

-->

<p><b>Open a Trading Account &amp;</b> Monitor the markets real-time &amp; Enjoy higher returns. Trade Online. Katak-</p>	<p><b>MBA for Great Placements</b> Start 6 Months before others in JAN And join the Winter Batch at IIPM. iinmadmissions.co</p>	<p><b>Naukri.com - Top Job Portal</b> 200000+ Jobs, over 25000 recruiters. Apply Now for Free. Naukri.com</p>
---	---	---

Ads by Yahoo!

## अन्य

[आंदोलित किसानों ने किया हंगामा](#)

[रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव](#)

[मेले में विशेष सतर्कता बरतने का आदेश](#)

[हर वर्ग का हुआ चहुंमुखी विकास : शर्मा](#)

[बिजली बंद रहेगी](#)

[पुस्तक ब्रेसलेट का विमोचन](#)

[बाल कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म का मुकदमा](#)

[एन्फोर्समेंट एजेंसियों को करेंगे सक्रिय](#)

[चुनौतियों के लिए तैयार रहें पेट उत्पादक](#)

[सम्मानित हुए अधिवक्ता-समाजसेवी](#)

1 2 3 4 5 6

शीर्षकों को अपने "मेरा याहू" पृष्ठ पर शामिल करें

उत्तर प्रदेश

झारखंड

बिहार

पंजाब

## जागरण YAHOO!

मुख्य पृष्ठ	सिने मजा	गुदगुदी
पंचांग	जोश	खाना खजाना
क्रिकेट	सखी	धर्म मार्ग

## ON YAHOO! INDIA

News	Matrimony	Cricket	Check mails
Maps	Our Cities	Movies	Search Jobs
Finance	Photos	Answers	Know your future

## THINGS TO DO

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव  
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है  
कॉपीराइट © 2011 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित  
कॉपीराइट / IP नीति